



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण


EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 241]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 17, 2002/भाद्र 26, 1924

No. 241]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 17, 2002/BHADRA 26, 1924

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2002

सं. 36 (आर. ई. 2002)/2002—2007

विषय : शुल्क छूट योजना के अन्तर्गत लहसुन उत्पादों के निर्यात के मद्दे कच्चे लहसुन का आयात।

फा. सं. 01/88/44/00001/ए एम 02/डी ई एस-IX.—लहसुन उत्पादों के निर्यात के मद्दे कच्चे लहसुन के आयात के लिए अग्रिम लाइसेंसों की अनुमति की ओर कुछ समय से विदेश व्यापार महानिदेशालय (मुख्यालय) का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। इस मामले की जांच की गई है।

2 आम जनता और क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारियों की सूचना के लिए सं का आ 349(अ) दिनांक 31-3-2002 के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप खण्ड (ii) में यथा अधिसूचित आयात-निर्यात नीति 2002—2007 के पैराग्राफ 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि लहसुन उत्पादों के निर्यात के मद्दे लहसुन के आयात के लिए प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड-1 (1 अप्रैल, 2002—31 मार्च, 2007) के पैरा 4.7 के तहत अग्रिम लाइसेंस क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारियों द्वारा जारी किए जाएंगे, जो :

(i) पूर्व आयात शर्त और इस शर्त पर कि

(ii) आयात और निर्यात में एलिसिन अंश का भार आयात और निर्यात मद्दे क्रोमेटोग्राफिक प्रोफाइल के आधार पर $\pm 2\%$ परिवर्तन के साथ मेल खाना चाहिए।

3 क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी ऐसे आवेदनों पर कार्यवाही जारी रखेंगे और उपर्युक्त पृष्ठांकनों सहित प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 (1 अप्रैल, 2002—31 मार्च, 2007) के पैरा 4.7 के तहत अग्रिम लाइसेंस जारी करेंगे और उसके बाद इस प्रयोजन के लिए निर्धारित नीति के प्रावधानों और प्रक्रियाओं के अनुसार मुख्यालय की अग्रिम लाइसेंसिंग समिति को अग्रेषित करेंगे ताकि मानदण्डों को अन्तिम रूप दिया जा सके।

4 इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

एल. मानसिंह, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 17th September, 2002

No 36 (RE-2002) /2002-2007

Subject:—Import of Raw Garlic against export of Garlic products under Duty Exemption Scheme.

F. No. 01/88/44/00001/AM02/DES-IX.—The issue of grant of advance licences for import of raw garlic against export of garlic products has been engaging the attention of the DGFT Head Office for quite sometime. The matter has been examined

2. For the notice of general public and RLAs, the Director General of Foreign Trade, in exercise of powers conferred on him under paragraph 2.4 of the Export and Import Policy, 2002–2007, as notified in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) vide S.O. No. 349 (E) dated 31-3-2002, hereby notifies that the advance licences under para 4.7 of the Handbook of Procedures, Vol I (1st April, 2002 - 31st March, 2007) for import of garlic against export of garlic products shall be issued by the Regional Licensing Authorities with

(i) prior import condition, and

(ii) the condition that the weight of Allicin content in import and export should match with a variation of $\pm 2\%$ on the basis of Chromatographic profile of import and export item

3. The RLAs shall continue to process such applications and issue advance licences under para 4.7 of the Handbook of Procedures, Vol I (1st April, 2002–31st March, 2007) along with the above endorsements and thereafter continue to forward the same to the ALC in the Head Office as per the Policy provisions and procedures laid down for this purpose, for finalization of norms.

4. This issues in public interest

L. MANSINGH, Director General of Foreign Trade